



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 14 जून, 2022

ज्येष्ठ 24, 1944 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1

संख्या 2/2022/162/80-1-2022-600(272)-2004

लखनऊ, 14 जून, 2022

अधिसूचना

प0आ10-139

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) की धारा 26-भ के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी परिषद (अधिकारी और कर्मचारी अधिष्ठान) विनियमावली, 1984 का संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी परिषद (अधिकारी और कर्मचारी अधिष्ठान)
(ग्यारहवाँ संशोधन) विनियमावली, 2022

1-(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद (अधिकारी और कर्मचारी अधिष्ठान) (ग्यारहवाँ संशोधन) विनियमावली, 2022 कही जाएगी।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद (अधिकारी और कर्मचारी अधिष्ठान) विनियमावली, 1984 (जिसे आगे "उक्त विनियमावली" कहा गया है) में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विनियम 2 के खण्ड(क) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

विनियम 2 का
संशोधन

स्तम्भ-1**विद्यमान खण्ड**

(क) अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक और उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) का तात्पर्य मण्डियों के अपर निदेशक (प्रशासन), संयुक्त निदेशक (प्रशासन/विपणन) और उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) से है।

विनियम 9 का संशोधन

3-उक्त विनियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विनियम 9 के अधीन सारणी की प्रविष्टि के स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गयी प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात् :-

स्तम्भ-1**विद्यमान प्रविष्टि**

1-परिषद्-निदेशक और अपर निदेशक (प्रशासन) एवं वित्त नियंत्रक को छोड़कर समूह "क" के समस्त पद।

विनियम 10 का संशोधन

4-उक्त विनियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विनियम 10 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1**विद्यमान विनियम**

(1) पद निम्नलिखित प्रकार से भरे जायेंगे-

(क) सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) परिषद् के कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) प्रतिनियुक्ति या संविदा के आधार पर:

परन्तु निदेशक, अपर निदेशक (प्रशासन) और वित्त नियंत्रक के पद प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जायेंगे।

टिप्पणी :- निदेशक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अतिकाल वेतनमान का एक अधिकारी होगा, अपर निदेशक (प्रशासन), राज्य सिविल सेवा (कार्यपालिका शाखा) की चयन श्रेणी का अधिकारी होगा तथा वित्त नियंत्रक राज्य वित्त सेवा का विशेष वेतनमान का अधिकारी होगा।

(2)(क) निदेशक, अपर निदेशक (प्रशासन) और वित्त नियंत्रक के पदों को छोड़कर समूह "क" के समस्त पद पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे और उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) के पद नीचे यथा संसूचित रूप से पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे :-

स्तम्भ-2**एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**

(क) 'अपर निदेशक', 'संयुक्त निदेशक' और 'उप निदेशक' (प्रशासन/विपणन) का तात्पर्य मण्डियों के अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक (प्रशासन/विपणन) और उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) से है।

स्तम्भ-2**एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्टि**

1-परिषद्-निदेशक और अपर निदेशक एवं वित्त नियंत्रक को छोड़कर समूह क के समस्त पद।

स्तम्भ-2**एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम**

(1) पद निम्नलिखित प्रकार से भरे जायेंगे-

(क) सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) परिषद् के कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) प्रतिनियुक्ति या संविदा के आधार पर:

किन्तु निदेशक, अपर निदेशक और वित्त नियंत्रक के पद प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जायेंगे।

टिप्पणी :- निदेशक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अतिकाल वेतनमान का अधिकारी होगा, अपर निदेशक राज्य सिविल सेवा (कार्यपालिका शाखा) की चयन श्रेणी का अधिकारी होगा तथा वित्त नियंत्रक राज्य वित्त सेवा का विशेष वेतनमान का अधिकारी होगा।

(2)(क) निदेशक, अपर निदेशक और वित्त नियंत्रक के पदों को छोड़कर समूह क के समस्त पद पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे और उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) के पद नीचे यथा संसूचित रूप से पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे :-

स्तम्भ-1**विद्यमान विनियम**

1-मण्डी सचिव संवर्ग से दस पद-चयन का मानदण्ड अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर।

2-विपणन अधिकारी संवर्ग के पदों से दो पद-चयन का मानदण्ड अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर।

3-प्रचार अधिकारी के पद से एक पद प्रथम बार तथा उसके पश्चात् विपणन अधिकारी के पद से एक पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर।

4-उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) मुख्यालय के लिये एक पद तथा अन्य उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) के पद राज्य पी0सी0एस0 सेवा के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(ख) समूह "ख" में 50 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे, परन्तु यह कि निजी सचिव ग्रेड-2 के पद पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

(ग) समूह "ग" के लिपिक संवर्ग में निम्नतम श्रेणी के पद निम्नवत् भरे जायेंगे :-

(1) 80 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा,

(2) 15 प्रतिशत पद समूह "घ" के कर्मिकों से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने हाईस्कूल या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।

(3) 5 प्रतिशत पद समूह "घ" के कर्मिकों से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने इण्टरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और 5 वर्ष की निरन्तर सेवा भी समूह "घ" के पद पर श्रेष्ठता के आधार पर पूरी कर ली हो।

(घ) समूह "ग" में निम्नतम श्रेणी से अधिक के वेतनमान में समस्त पद पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे परन्तु यह कि विधिक सहायक, सहायक प्रोग्रामर एवं चालक के पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।

(ङ) समूह "घ" में समस्त पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।

स्तम्भ-2**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम**

1-मण्डी सचिव संवर्ग से दस पद-चयन का मानदण्ड अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता होगा।

2-विपणन अधिकारी संवर्ग के पदों से दो पद-चयन का मानदण्ड अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता होगा।

3-प्रचार अधिकारी के पद से एक पद प्रथम बार तथा उसके पश्चात् विपणन अधिकारी के पद से एक पद अनुपयुक्त अभ्यर्थियों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन द्वारा।

4-उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) मुख्यालय के लिये एक पद तथा अन्य उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) के पद राज्य पी0सी0एस0 (प्रांतीय सिविल सेवा) के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(ख) समूह 'ख' के 50 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे, परन्तु यह कि निजी सचिव ग्रेड-2 के पद पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

(ग) समूह ग के लिपिक संवर्ग में निम्नतम श्रेणी के पद निम्नानुसार भरे जायेंगे:-

(1) 80 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा,

(2) 15 प्रतिशत पद समूह घ के कर्मचारियों, जिन्होंने हाईस्कूल या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा।

(3) 5 प्रतिशत पद समूह घ के कर्मचारियों, जिन्होंने इण्टरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और 5 वर्ष की निरन्तर सेवा भी समूह घ के पद पर योग्यता के आधार पर पूरी कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा।

(घ) समूह ग में निम्नतम श्रेणी से अधिक के वेतनमान में समस्त पद, पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे परन्तु यह कि विधिक सहायक, सहायक प्रोग्रामर एवं चालक के पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।

(ङ) समूह घ में समस्त पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।

परिशिष्ट-क का
संशोधन

5-उक्त विनियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 दिये गये परिशिष्ट क की प्रविष्टि 2 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गयी प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

विद्यमान प्रविष्टि

क्र० सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान (रूपये में)
2	अपर निदेशक (प्रशासन)	01	प्रान्तीय सिविल सेवा का चयन वेतनमान का अधिकारी (प्रतिनियुक्ति पर)

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्टि

क्रम संख्या	पद का नाम	पद की संख्या	वेतनमान (रूपये में)
2	अपर निदेशक	01	प्रान्तीय सिविल सेवा (पी०सी०एस०) का चयन वेतनमान का अधिकारी (प्रतिनियुक्ति पर)

आज्ञा से,
डा० देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2/2022/162/ LXXX-1-2022-600(272)-2004, dated June 14, 2022 :

No. 2/2022/162/ LXXX-1-2022-600(272)-2004

Dated Lucknow, June 14, 2022

IN exercise of the powers under section 26-x of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U.P. Act no. 25 of 1964), the State Agricultural Produce Markets Board, Lucknow with the previous approval of the State Government, makes the following regulations with a view to amend the Uttar Pradesh Agricultural Produce Markets Board (Officers and Staff Establishment) Regulations, 1984.

THE UTTAR PRADESH AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS BOARD (OFFICERS AND STAFF ESTABLISHMENT) (ELEVENTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2022

Short title and
commencement

1. (1) These regulations may be called The Uttar Pradesh Agricultural Produce Markets Board (Officers and Staff Establishment) (Eleventh Amendment) Regulations, 2022.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in *Gazette*.

Amendment of
regulation 2

2. In the Uttar Pradesh Agricultural Produce Markets Board (Officers and Staff Establishment) Regulations, 1984 (hereinafter referred to as the "said Regulations") for clause (a) of regulation 2 set out in Column-1 below, the clause as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :-

COLUMN-1

Existing clause

(a) "Additional Director", "Joint Director" and "Deputy Director (Administration/Marketing)" means Additional Director (Administration), Joint Director (Administration/Marketing) and Deputy Director (Administration/Marketing) of Mandis.

COLUMN-2

Clause as hereby substituted

(a) "Additional Director", "Joint Director" and "Deputy Director (Administration/Marketing)" means Additional Director, Joint Director (Administration/Marketing), and Deputy Director (Administration/Marketing) of Mandis.

3. In the said Regulations, *for* entry 1 of the Table under regulation 9 set out Column-1 below, the entry as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :-

Amendment of regulation 9

COLUMN-1

Existing entry

1. **Board**-All posts in group A except the Director and Additional Director (Administration) and Finance Controller.

COLUMN-2

Entry as hereby substituted

1. **Board**-All posts in group A except the Director and Additional Director and Finance Controller.

4. in the said regulations, *for* regulation 10 set out in Column-1 below, the regulation as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :-

Amendment of regulation 10

COLUMN-1

Existing regulation

(1) The posts shall be filled :-

(a) by direct recruitment;

(b) by promotion of Parishad employee;

(c) by Deputation or Contract basis but post of Director, Additional Director (Administration) and Finance Controller shall be filled by deputation.

NOTE :- The Director shall be an officer in the super time scale of the I.A.S., the Additional Director (Administration) shall be an officer in the selection grade of the State Civil Service (Executive Branch) and Finance Controller shall be an officer in special pay scale of State Finance Services.

(2) (a) All the posts in Group-A except the post of Director, Additional Director (Administration) and Finance Controller Shall be filled by promotion and the post of Deputy Director (Administration/Marketing) shall be filled by promotion as indicated below :-

1. Ten posts from Mandi Secretary cadre. The criteria for selection shall be seniority subject to rejection of the unfit.

2. Two post from the post of marketing officer cadre. The criteria for selection shall be seniority subject to rejection of the unfit.

3. One post from the post of Publicity Officer. One time and after that from the post of Marketing Officer by selection on Seniority subject to rejection of the unfit.

4. One post of Deputy Director (Administration/Marketing) Head Quarter and other post of Deputy Director (Administration/Marketing) by State PCS Service Officer on Deputation.

COLUMN-2

Regulation as hereby substituted

(1) The posts shall be filled :-

(a) by direct recruitment;

(b) by promotion of Parishad employee;

(c) by Deputation or on Contract basis but post of Director, Additional Director and Finance Controller shall be filled by deputation.

NOTE :- The Director shall be an officer in the super-time scale of the I.A.S., the Additional Director shall be an officer in the selection grade of the State Civil Service (Executive Branch) and Finance Controller shall be an officer in special pay scale of State Finance Services.

(2) (a) All the posts in Group-A except the post of Director, Additional Director and Finance Controller Shall be filled by promotion and the post of Deputy Director (Administration/Marketing) shall be filled by promotion as indicated below :-

1. Ten posts from Mandi Secretary cadre. The criteria for selection shall be seniority subject to rejection of the unfit.

2. Two post from the post of marketing officer cadre. The criteria for selection shall be seniority subject to rejection of the unfit.

3. One post from the post of Publicity Officer. One time and after that from the post of Marketing Officer by selection on Seniority subject to rejection of the unfit candidates.

4. One post of Deputy Director (Administration/Marketing) Head Quarter and other post of Deputy Director (Administration/Marketing) by State PCS Service Officer on Deputation.

COLUMN-1*Existing regulation*

(b) 50 percent post in Group 'B' shall be filled by promotion and 50 percent by direct recruitment provided that posts of Private Secretaries Grade-2 shall be filled by promotion.

(c) Lowest Grade in Clerk Cadre in Group-C shall be filled as follows—

1. 80 percent posts by direct recruitment.

2. 15 percent posts by promotion from Group-D employees who have passed High School or equivalent examination.

3. 5 percent post by promotion from Group-D employees who have passed Intermediate or equivalent examination, also completed 5 year continuous service in Group-D post on merit basis.

(d) All the posts in the scale of pay above the lowest grade in Group-C shall be filled by promotion provided that posts of Legal Assistant, Assistant Programmer and Driver shall be filled by direct recruitment.

(e) All the posts in Group-D shall be filled by direct recruitment.

5. In the said regulations, *for* entry 2 of Appendix-A set out in Column-1 below, the entry as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :—

COLUMN-1*Existing entry*

Sr. no.	Name of Post	No. of Posts	Pay Scale (Rs.)
2	Additional Director (Administration)	1	Officer in the selection pay scale in PCS service (on Deputation)

COLUMN-2*Regulation as hereby substituted*

(b) 50 percent post in Group 'B' shall be filled by promotion and 50 percent posts shall be filled by direct recruitment provided that posts of Private Secretaries Grade-2 shall be filled by promotion.

(c) Lowest Grade in Clerk Cadre in Group-C shall be filled as follows—

1. 80 percent posts by direct recruitment.

2. 15 percent posts by promotion from Group-D employees who have passed High School or equivalent examination.

3. 5 percent post by promotion from Group-D employees who have passed Intermediate or equivalent examination, also completed 5 year continuous service in Group-D post on merit basis.

(d) All the posts in the scale of pay above the lowest grade in Group-C shall be filled by promotion provided that posts of Legal Assistant, Assistant Programmer and Driver shall be filled by direct recruitment.

(e) All the posts in Group-D shall be filled by direct recruitment.

COLUMN-2*Entry as hereby substituted*

Sr. no.	Name of Post	No. of Post	Pay Scale (Rs.)
2	Additional Director	1	Officer in the selection pay scale in PCS service (on Deputation)

Amendment of
Appendix-A

By order,

DR. DEVESH CHATURVEDI,

Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 133 राजपत्र-2022-(303)-599+50=649 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।